

ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 Certified Company CIN: L14100RJ1991PLC073860

Ref: GSL/SEC/2024-25/16

To,

**BSE** Limited,

Department of Corporate Services Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 (Maharashtra, India)

**Scrip Code: 543829** 

Mumbai – 400051 (Maharashtra, India)

Symbol: GSLSU

Date: May 31, 2024

The Listing Department,

Exchange Plaza, C-1, Block G,

National Stock Exchange of India Limited

Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

Subject: Submission of Newspaper clippings of advertisement published for extract of annual

Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended on

March 31, 2024

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions, if any of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("the Listing Regulations"), as amended from time to time, please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement for publishing the extract of annual Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended on March 31, 2024 published in the English (Financial Express - All Edition) and Regional - Hindi (Business Remedies) newspaper on Friday, 31 May 2024.

The above notice will also be hosted on the website of the Company and the same can be accessed at www.globalsurfaces.in

You are requested to take on record the above information.

Thanking you Yours faithfully,

For Global Surfaces Limited

**Dharam Singh Rathore Company Secretary and Compliance Officer** ICSI Mem. No.: A57411

Place: Jaipur

Encl.: As above



Registered Office & Quartz Division: Plot No.: PA-010-006, SEZ Engineering & Related Industries, Mahindra World City, Teh. Sanganer, Jaipur 302037 (Rajasthan), Ph. 0141-7191000

Natural Stone Division: Plot No.: E40-42, G43-47 RIICO Industrial Area, Bagru Ext., Jaipur 303007, Rajasthan (India) Ph. 0141-2865186/87, +91 99822 49800







FINANCIAL EXPRESS

**15** 

### PREMIER POLYFILM LIMITED

Regd. Office: Flat No. 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extension, (Zamroodpur), New Delhi - 110048 CIN: L25209DL1992PLC049590; GST: 07AAACP0371Q2Z5 Phone: 011 -45537559, Email: compliance.officer@premierpoly.com

NOTICE OF TRANSFER OF UNCLAIMED SHARES TO INVESTOR **EDUCATION AND PROTECTION FUND AUTHORITY** Notice is hereby given to the shareholders of the company pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Investor Education and protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF

Rules) as amended from time to time, The IEPF Rules, inter alia, provide that all the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, shall be transferred by the company in the name of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF)

Adhering to the various requirements/provisions set out in the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholder whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority in the financial year 2024-2025 under the IEPF Rules for taking appropriate action.

The company has also uploaded the details of such shareholders and number of shares due for transfer to IEPF Authority on its website at www.premierpoly.com shareholders are requested to verify the details of unpaid/unclaimed dividend and number of equity shares liable to be transferred to Investor Education And Protection Fund Authority (IEPF) Authority from the company's website.

The shareholders are advised to claim their shares by 15-11-2024.

Shareholders may also note that both the unclaimed dividend and equity shares transferred to IEPF Authority can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribedunder the IEPF Rules.

The shareholder may further note that the details uploaded by the company on its website should be regarded and shall be deemed to be adequate notice in respect of new share certificate(s) by the company, for the purpose of transfer of shares held in physical form to the IEPF Authority pursuant to the IEPF Rules.

In case, the shareholder does not claim the unclaimed dividend(s) by 15th November 2024, the company shall with a view to comply with the requirements set out in the IEPF Rules, initiate necessary action for transfer of equity shares (whether held in physical form or in demat form) to the IEPF Authority as per procedure prescribed in this regard. In case shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Share transfer Agent at Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd., "Beetal House", 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Das Mandir, New Delhi - 110062 Email: beetalrta@gmail.com or company's Secretarial Department at above stated address or at Emails: compliance.officer@premierpoly.com

> For Premier Polyfilm Limited Heena Soni Company Secretary



Mahindra World City Teh- Sanganer RJ 302037 IN; Tel. No. 0141-7191000; E-mail: cs@globalsurfaces.in, Website: - www.globalsurfaces.in CIN: L14100RJ1991PLC073860

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2024

Sr.		Q	uarter Ende	ed	YearEnded	
No.		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1.	Revenue from Operations	1,086.22	400.65	395.96	2,252.91	1,780.66
2.	PBIDT	160.78	75.14	90.86	386.83	382.90
3,	Net Profit/(Loss) for the period Before Tax	114.92	44.96	59,13	252.52	252.91
4.	Net Profit/(Loss) for the period After Tax	108.34	34.09	57.50	197.81	242.34
5.	Total Comprehensive Income for the period	109.51	34.29	56.01	203,92	257.13
6.	Equity Share Capital (of Rs. 10-each)	423.82	423.82	423.82	423.82	423.82
7.	Other Equity (Reserves)		- 7		2,881.25	2,189.48
8.	Earnings Per Share: Basic (in Rs.) Diluted (in Rs.)	2.48 2.48	0.77 0.77	1.68 1.68	4,41 4,41	7.10 7.10

Note: Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

Sr.	Particulars		uarter Ende	Year Ended		
No.	0.0000000000000000000000000000000000000	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1.	Revenue from Operations	444.25	404.74	391.12	1,621,35	1,770,30
2.	PBIDT	75.44	88.98	87.52	364.29	388.94
3.	Profit before Tax	47.04	63.85	56.18	257.84	260.38
4.	Profit after Tax	42,89	53.69	54,78	210.64	250.74

The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formal of the Audited Standalone and Consolidated Quarterly and Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e., www.nseindia.comand www.bseindia.com and also on Company's website at www.globalsurfaces.in

For and on behalf of the Board of Directors Mayank Shah Place: Dubai Chairman and Managing Director

Date: May 29, 2024

Place: New Delhi

Date: 30-05-2024

DIN: 01850199

## **BENGAL & ASSAM COMPANY LIMITED**

**Extract of Audited Consolidated Financial Results** for the Quarter and Year ended 31st March, 2024

	0.00 C - 30 C - 30 C - 50 C -	North Action of March		(₹ in Lakhs)
SI.	Particulars	Quarte	Ended	Year Ended
No.	Paruculais	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024
1	Total Income from operations	52,293.84	4,10,340.72	12,91,741.19
2	Profit before Interest, Depreciation & Taxes (PBIDT)	13,846.03	52,301.86	1,94,995.18
3	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	11,109.65	26,824.38	1,21,241.17
4	Net Profit for the period (before Tax but after Exceptional Items)	11,109.65	27,845.38	4,10,923.51
5	Net Profit for the period (after Tax and Exceptional Items)	31,651.71	34,468.45	4,19,357.55
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	32,585.05	36,847.53	4,15,762.75
7	Equity Share Capital	1,129.63	1,129.63	1,129.63
8	Other Equity excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet as of 31st March, 2024			.9,04,418.70
9	Earnings per share of ₹ 10/- each			5-00-05-05-0-000
	<ul> <li>Basic and Diluted (₹) - after Exceptional Item</li> </ul>	275.57	253.92	3,444.99
	<ul> <li>Basic and Diluted (₹) - before Exceptional Item</li> </ul>	275.57	250.82	1,112.09

Notes:

Standalone Financial information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEB

(Listing Obligations and Disclosure Requirement	s) Regulations	, 2015:	
88 - X5W5	Quarter	Ended	Year Ended
Particulars	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024
Revenue	6,480.52	6,571.66	15,958.07
Profit before Interest, Depreciation & Taxes (PBIDT)	6,152.63	6,337.61	14,900.59
Profit before Tax	5,924.96	5,956.48	13,789.30
Profit After Tax	5,047.09	5,103.12	11,574.78

- The Board of Directors have recommended dividend of ₹ 40/- per equity share, subject to the approval of Shareholders.
- 3. JK Tyre & Industries Ltd. (JKTIL) ceased to be a subsidiary of the Company w.e.f. 23.12.2023 and became an 'Associate'. Accordingly, the financial results have been drawn up giving effect to this. Consequently, the results are not strictly comparable with corresponding
- In the Consolidated Financial Results "Exceptional Items" includes: a) Pursuant to note no. 3 above, there is a gain of ₹ 2,89,928,39 lakhs on account of

Place: New Delhi

- Fair Valuation of equity held in JKTIL which has been recognised as per Ind As 110 "Consolidated Financial Statements", b) Foreign Exchange gain of ₹ 168.52 Lakhs and VRS expenses of ₹ 414.57 Lakhs of
- erstwhile subsidiary (JKTIL) upto 22<sup>nd</sup> December, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended 31<sup>st</sup> March, 2024 Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Financial Results are available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the Company's website at www.bengalassam.com.

For Bengal & Assam Company Limited (Bharat Hari Singhania)

Date: 30.05.2024 For Kind attention of Shareholders : As a part of Green Initiative of the Government, all the Shareholders are requested to get their email addresses registered with the Company for receiving Annual Report etc. on email.

Admin. Office: Patriot House, 4th Floor, 3, Bahadur Shah Zafar Marg.

New Delhi- 110002, Phone: 91-11-66001112 Regd. Office: 7, Council House Street, Kolkata-700 001 Telephone No.: 033-22486181, Fax No. 033-22481641 CIN: L67120WB1947PLC221402 Website: www.bengalassam.com, E mail ID: dswain@jkmail.com



### Motilal Oswal Home Finance Limited

CIN: U65923MH2013PLC248741

Regd. Office: Motifal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel S T Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025. Maharashtra, India. Tel: +91 8291889898; Fax: +91 22 5036 2365; E-mail: hfquery@motilaloswal.com; Website; www.motilaloswalhf.com

NOTICE OF ELEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH ELECTRONIC MODE

Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Motifal Oswal Home Finance Limited ("the Company") is scheduled on Tuesday, June 25, 2024 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder read with General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred as "MCA Circulars") and the SEBI Circular dated October 06, 2023 (hereinafter referred as "SEBI Circular") without the physical presence of the Members

In compliance with aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of AGM along with Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent only through electronic mode to those Members/Debenture holders, whose names appear in the Register of Members / Register of Debentures holders / Beneficial Owners maintained by the Company / Depositories as on benpos date i.e. Friday, May 31, 2024 and whose e-mail IDs are registered with the Company / Depositories. Accordingly, Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the Remote e-voting or casting vote through E-voting during AGM would be provided in the Notice of AGM. Members participating through the VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice and the Annual Report will also be made available on the website of the Company at www.motilaloswalhf.com, on the website of the Link Intime India Private Limited ("LIIPL") at https:// instavote linkintime.co.in and on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com. Necessary arrangements have been made by the Company with LIIPL to facilitate Remote e-voting and E-voting during the AGM. The Remote e-voting facility commences on Friday, June 21, 2024 at IST 9:00 A.M. and ends on Monday, June 24, 2024 at IST 5:00 P.M.

The Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail IDs with the Company / Depositories or any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice of AGM has been sent electronically by the Company and holds shares as of the Cut-off date i.e. Tuesday, June 18, 2024, may obtain the User ID and Password by sending a request at enotices@linkintime.co.in. However, if a Member is already registered with LIPL for Remote e-voting and E-voting during AGM, then existing User ID and Password can be used for casting vote. The Members who have not registered their e-mail IDs and holding Equity Shares in Demat form are requested to register

their e-mail IDs with their respective Depository Participant ("DP") and the Members holding Equity Shares in physical form may get their e-mail IDs registered with the Company by sending the request at corpsec@motilaloswal.com. The Members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate Number, PAN, Mobile Number and e-mail ID, etc. The Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions

for joining the AGM through VC/OAVM, manner of casting vote through Remote e-voting and E-voting during the AGM.

For Motilal Oswal Home Finance Limited Sunny Ganatra

(ACS: 62430)

Place: Mumbai Company Secretary & Compliance Officer Date: May 31, 2024



nay download it from above-mentioned website

### HERO FINCORP LIMITED (CIN: U74899DL1991PLC046774)

Read, Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Corp. Office: 9, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Email: investors@herofincoro.com , Phone No.: 011-46044100, 011-49487150,

#### Website: www.herofincorp.com POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given that Hero FinCorp Limited ("the Company") has, on Thursday, May 30, 2024, completed the dispatch of Notice to its all eligible Members, under Section 108 and 110 and any other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, read with General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 33/2020,39/2020, 10/2021, 20/2021, 3/2022, 11/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 08, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively ("MCA Circulars"), and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") (including any statutory modification(s) or re- enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time to time), sent the electronic copies of Notice of Postal Ballot along with Explanatory Statement to all Members of the Company, who have registered heir e-mail address with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent i.e. Link Intime India Private Limited as on Friday, May 24, 2024 being the cut-off date, for seeking the consent of the members by way of Special Resolutions for the business set out in the Notice dated May 29, 2024, to be transacted by postal ballot by voting through electronic means ("remote e-voting") only.

n case a member desires to exercise vote by using e-voting as stipulated under Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing e-voting platform for the above through Link Intime India Private Limited ("RTA"). The procedure for e-voting is available on the e-voting website https://instavote.linkintime.co.in and notice of Postal Ballot.

n accordance with the provisions of MCA Circulars, Members can vote only through remote e-voting process. Members whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on Friday, May 24, 2024 which is the cut-off date may cast their vote brough e-voting only and a person who is not a Member as on the Cut-off date shall treat this Notice for information purpose only. The physical copies of the Notice, postal ballot forms and pre-paid Business Reply Envelopes are not being sent to Members for this Postal Ballot. Members are requested to provide their assent and dissent through e-voting only. The Company has appointed Link Intime India Private Limited ("RTA") for facilitating e-voting to enable the Members to cast their votes

and will continue till 5.00 p.m. on Sunday, June 30, 2024. The e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Sunday, June 30, 2024. The voting by electronic means shall not be allowed beyond said date. Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement including e-voting instructions can be downloaded from the 'investors section' on Company's website: www.herofincorp.com, website of Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India (NSE) a www.nseindia.com and on the website of RTA i.e. https://linkintime.co.in. Members who have not received the Postal Ballot Notice

electronically. The members are requested to note that the e-voting will commence on Saturday, June 01, 2024 at 09.00 a.m. onwards

Mr. Devesh Kumar Vasisht, (FCS-8488; CP. No. 13700), Managing Partner and/or Mr. Parveen Kumar, (FCS-13411; CP. No. 13411). Partner of of M/s. DPV & Associates LLP, Practicing Company Secretaries, New Delhi (Firm Registration No. L2021DE009500), have been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through e-voting process in a fair and transparent manner. The Results shall be declared along with the Scrutinizers' Report latest by 05.00 p.m. on Tuesday, July 02, 2024 at the Registered Office and Corporate Office of the Company and shall also be placed on the Company's website www.herofincorp.com and on the website of Link Intime India Private Limited i.e. http://.instavote.linkintime.co.in and shall be communicated to the Stock Exchange where the Company's securities are listed.

Members holding shares in physical form and have not registered their e-mail address can now register the same by writing to the Company at investors@herofincorp.com to enable the Company to register the e-mail address and for receiving the Notice of Postal Ballot and E-Voting instructions. Members holding shares in demat form are requested to register/update their, e-mail addresses with their Depository Participant(s) only.

n case of any queries / grievance connected with the voting by postal ballot or electronic voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of www.insta.linkintime.com or contact Link Intime at Telephone no.: 022-49186000 or Mr. Shivendra Suman, Head-Compliance and Company Secretary of the Company, at 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi or at Telephone no. 011-49487150.

By Order of the Board For Hero FinCorp Limited Date: May 30, 2024 Shivendra Suman Place: Delhi Head-Compliance and Company Secretary

#### **WELSPUN CORP LIMITED** WELSPUN CORP CIN: L27100GJ1995PLC025609

Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, Dist. Kutch, Gujarat, Pincode-370110. **[el No.:** 02836-662222, **Fax :** 02836-279060, email - Companysecretary\_wcl@welspun.com, **Website:** www.welspuncorp.com Corp. Office: Welspun House, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Pincode -400013. Tel No.: 022-2490 8000, Fax: 022-2490 8020

### AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

		(INR. in crores except earnings per share)							
Sr. No.	PARTICULARS		Quarter Er (Unaudite	Year Ended (Audited)					
_		31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23			
1	Total Income	4,543.70	4,758.17	4,132.38	17,582.06	10,078.08			
2	Net Profit for the period before tax	347.11	372.68	325.41	1,413.48	333.63			
3	Net Profit for the period after Tax								
Ш	(including non-controlling interests)	287.28	293.70	240.08	1,136.00	199.17			
4	Total Comprehensive Income for the period	290.78	290.15	241.03	1,160.38	313.85			
5	Paid up equity share capital								
Ш	(Face value of INR 5/- each)	130.83	130.83	130.77	130.83	130.77			
6	Other Equity				5,485.46	4,601.28			
7	Earnings per share (not annualised for the quarter)								
Ш	(a) Basic (In INR)	10.26	11.16	9.02	42.45	7.91			
	(b) Diluted (In INR)	10.23	11.13	9.00	42.32	7.89			
No	tes								

- The above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation of 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the Company's website www.welspuncorp.com.
- 2 The Audited Consolidated and Standalone Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on May 30, 2024.
- 3 The Consolidated and Standalone Financial Results of the Company have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- 4 The figures for the previous periods have been regrouped wherever necessary.

Net Profit for the period after tax

Place: Mumbai

Date: May 30, 2024

Total Comprehensive Income for the period

5 Additional Information on standalone financial results is as follow: (INR. in crores) Year Ended **Quarter Ended PARTICULARS** (Unaudited) (Audited) 31-Mar-24 31-Dec-23 31-Mar-23 31-Mar-24 31-Mar-23 2,332.03 3,152.49 9,558.29 7,993.62 **Total Income** 3,056.33 Net Profit for the period before tax 31.89 274.92 595.50 371.03 227.02

> For and On Behalf of the Board of Directors of Welspun Corp Limited Vipul Mathur **Managing Director and Chief Executive Officer** DIN - 07990476

188.72

190.42



### **KRAZYBEE SERVICES PRIVATE LIMITED**

CIN: U65100KA2016PTC086990

3rd Floor, No.128/9, Maruthi Sapphire, HAL Airport Road, Murgesh Palya, Bangalore - 560017

Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024 [Regulation 52(8), read with Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) Regulation, 2015]

	l'	Quarter ende	ed	(Rs. In Lakhs) Year Ended		
SI. No.	Particulars	March 31, 2024 (Audited)	December 31, 2023 (Reviewed)	March 31, 2023 (Audited)	March 31, 2024 (Audited)	March 31 2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	46,005.02	38,151.81	25,607.02	139,925.71	71,700.79
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8,486.96	8,896.41	5,735.91	26,838.67	8,749.7
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,486.96	8,896.41	5,735.91	26,838.67	8,749.7
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,325.86	6,647.79	4,279.26	20,035.82	6,508.8
5	"Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]"	6,313.11	6,651.55	4,252.56	20,034.35	6,494.8
6	Paid up Equity Share Capital	112.73	112.73	111.79	112.73	111.7
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	39,653.53	31,991.69	16,882.96	39,653.53	16,882.9
8	Securities Premium Account	79,251.80	71,894.59	71,894.59	79,251.80	71,894.5
9	Net worth	204,638.62	176,286.11	158,915.36	204,638.62	158,915.3
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	273,971.46	241,780.93	129,359.27	273,971.46	129,359.2
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	_	-	-	
12	Debt Equity Ratio	1.34	1.37	0.81	1.34	0.8
13	"Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): 1. Basic "	561.14	592.86	380.81	1,787.12	579.2
	2. Diluted	415.77	439.97	291.33	1,325.21	532.5
14	Capital Redemption Reserve	0.59	0.59	0.59	0.59	0.5
15	Debenture Redemption Reserve	<u> </u>		-	-	2
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicat
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicab

the Board of Directors of Krazybee Services Private Limited ('the Company') at their respective meetings held on May 29, 2024. b) The above is an extract of the detailed format of quarterly and annual financial results filed with the

Stock Exchanges under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the guarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the company (BSE Limited website (www.bseindia.com) and Company's website (www.kbnbfc.in)). (c) For the other line items referred to in regulation 52(4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures

have been made to the Stock Exchange(s) (BSE Limited) and can be accessed on the (BSE: www.bseindia.com) and Company's website (www.kbnbfc.in). (d) Financial ratios pertaining to Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio mentioned above are not applicable to the Company pursuant to the proviso under Regulation 52(4) of the Securities

And Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 dated September 02, 2015, as amended from time to time. (e) Figures pertaining to the previous period have been rearranged/ regrouped, wherever considered

necessary, to make them comparable with those of the current period. For Krazybee Services Private Limited

March 31, 2024 Dec 31, 2023 March 31, 2023 March 31, 2024 March 31, 2023

Vivek Veda **Director** DIN: 07560229

Date: 29th May 2024

**Particulars** 

Place: Bangalore

No.

## DION GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

(CIN: L74899DL1994PLC058032)

Registered Office: 409, Chaudhary Complex, 9 VS Block, Madhuban Road, Shakarpur, Delhi-110092

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31,2024

(ALL AMOUNTS ARE IN ₹ LAKHS UNLESS OTHERWISE STATED) Quarter Ended Year Ended

	THE PRODUCTION OF THE PARTY OF	(Audited)	(Unaudited)	THE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PARTY.	(Audited)	(Audited)
	Revenue	No. of the last of	100 000 000	2000 - 2000 - 200	- 11	
6	Revenue from Operations	316.46	306.49	225.27	1042.45	948.28
II	Other Income	5.16	3.77	6.65	47.18	276.39
III	Total Revenue (I+II)	321.62	310.26	231.92	1,089.63	1,224.67
IV	Expenses			Act Property	H U	
	Employee Benefits Expenses	205,96	205,37	183.15	818,59	757.88
	Rent	6,63	6.63	6.65	26.55	26.28
	Travelling and Conveyance	3.90	3.32	0.23	11.49	6.48
	Finance Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Depreciation and Amortization Expense	6.97	7.14	7.07	28.41	27.98
	Other Expenses	58.20	84,30	159.67	325.15	433.47
	Total Expenses (IV)	281.66	306.76	356.77	1,210.19	1,252.09
7	Profit/(Loss) Before Exceptional Items and Tax	39.96	3.50	(124.85)	(120.56)	(27.42)
/1	Exceptional Items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/11	Profit/(Loss) Before Tax	39.96	3.50	(124.85)	(120.56)	(27.42)
/111	Tax Expense	95	98	5.55	85	
Х	Profit/(Loss) After Tax	39.96	3.50	(124.85)	(120.56)	(27.42)
X	Other Comprehensive Income- (i) Items that will not be reclassified to Profit or Loss	erenne.	The Oracles	A Charles and a charles and a	(Basela, even	To a second
	Re-measurement Gains/(Losses) on Defined Benefit Plans	-0.31	8	5.63	(0.31)	5.63
XI.	Total Comprehensive Income for the Year (IX+X)	2430700	3.50	(119.22)	(120.87)	(21.79)
XII	Paid up equity share capital	33.00	0.00	(113.22)	(120.01)	(21.10)
All	(Face Value Rs. 10/- Per Share)	3,222.74	3,222.74	3,222,74	3,222.74	3222.74
XIII	District Control of Co	Stylestose: F. C.	September	2.W (MONHAGE)	SF) members 2000	(Witness C.)
300	Basic (₹)	0.12	0.01	(0.37)	(0.38)	(0.07)
	Diluted (₹)	0.12	0.01	(0.37)	(0.38)	(0.07)
XIV	1.1.175.0000000 (Min. Min. Min. Min. Min. Min. Min. Min.	46.93	10.64	(112.15)	(92.15)	0.57

. The above is an extract of the detailed format of quarterly Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly ended Audited Financial Resultss are available on the Stock

 An application was filed against M/s DION GLOBAL SOLUTIONS LIMITED under Section 9 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with Rule 6 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules, 2016 before the Hon'ble NCLT Delhi with a prayer to commence the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). The said application for initiation of Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) has been admitted by Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi Bench, (Hon'ble NCLT/Hon'ble Adjudicating Authority) vide its order dated 18.08.2020. Under the IBC proceedings, the power of the Board were suspended with effect from 18.08.2020. The NCLT order also provided for a moratorium with effect from 18.08.2020 till the completion of the Corporate Insolvency Resolution process (CIRP) or until it approves the resolution plan under section 31(1) or passes an order for liquidation of the company under section 33, whichever is earlier. Currently, the CIRP process in respect of the company is in progress. In terms of Section 20 of Insolvency code, the management and operations of the Company are being managed by Interim Resolution Professional (IRP) / Resolution

Exchange website i.e. www.bseindia.com and also on the Company's website www.dionglobal.com.

these financial statements prepared through present employees of the Company and hired consultants. These financial statements have been taken on record by the Resolution Professional while exercising the powers of the Board of Directors of the Company, which have been conferred upon him in terms of the provisions of Section 17 of the Code. Resolution Professional has taken on record these financial statements in good faith solely for the purpose of compliance and discharging his duty under the Code.

. All the executive directors of the Company, CFO and Company Secretary had resigned from the Company before the commencement of CIRP. In the

absence of these concerned officials, who are primarily responsible for the book closure process and financial reporting, the Resolution Professional has got

. As per regulation 33(3)(d) of the SEBI (LODR), 2015, if the listed entity has subsidiaries, it shall, while submitting annual audited standatone financial results also submit annual audited consolidated financial results along with the audit report. It is to be noted that Resolution Professional in his powers shall have control over management of the corporate debtor only and not on its subsidiary, associate, or any other group companies. Hence only standalone audited financial results are submitted with the stock exchange.

. As per Regulation 33(2)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Financial Results of a Company submitted to the Stock Exchange shall be signed by the Chairperson or Managing Director or Whole Time Director or in absence of all of them, it shall be signed by any of the Director of the Company who is fully authorised by the Board of Directors to sign the Financial Results. In view of the ongoing Corporate Insolvency Resolution Process commenced from 18th August 2020, powers of the Board of Directors have been suspended and these powers are now vested with the Resolution Professional of the Company vide the order passed by Hon'ble NCLT, New Delhi on 18.08.2020. Accordingly, the above Financial Results of the Company for the quarter ended 31st March 2024 were taken on record and authorised for issue to concerned authorities by the Resolution Professional. A Resolution Plan received during the Corporate Insolvency Resolution Process has been approved by the Committee of Creditors and the same has been

submitted to the Hon'ble NCLT. The matter is still pending with Hon'ble NCLT for final approval. . As the Company is into Software Product and Services business, license fee revenue may vary from quarter to quarter.

The Company is primarily engaged in the business of Software Product and Services, which in the opinion of management is considered to be the only reportable business segment as per Ind AS 108 on 'Operating Segments' prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. The previous quarters' figures have been regrouped' reclassified wherever necessary to correspond with the current quarters' classification/disclosure.

For DION GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

Pardeep Kumar Lakhani Resolution Professional

Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00541/2017-2018/10966

New Delhi

Place: Delhi

Date: 30.05.2024

financialexp.epapr.in

21.89

16.96

202.74

212.19

476.35

477.76

277.19

286.09

## क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने गोदरेज माय फार्म लॉन्च किया

बिज़नेस रेमेडीज/मुंबई

भारत के सबसे बड़े और विविधतापूर्ण कृषि व्यवसाय गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने आज गोदरेज माय फार्म मिल्क लॉन्च करने की घोषणा की, जो गोदरेज के फॉर्म से सीधे उपभोक्ताओं के दरवाजे तक प्रीमियम क्वॉलिटी का दूध पहुंचाएगा। गोदरेज माय फार्म मिल्क को गोदरेज के अपने फॉर्म से सीधे सोर्स किया जाता है, पाश्चरीकृत किया जाता है और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके पैक किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दुध ताजा हो और उसका प्राकृतिक स्वाद और पोषण मूल्य भी बरकरार रहे। केवल हैदराबाद में उपलब्ध होने के कारण, दूध निकालने से लेकर उत्पाद तक उपभोक्ताओं तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया स्वचालित है, जिससे गोदरेज माय फार्म एक ऐसा दूध बन गया है, जिसमें फीड से लेकर ब्रीड तक की सप्लाई चेन पूरी तरह से नियंत्रित है, इसमें कोई भी मानवीयकृत हस्तक्षेप नहीं होता यानी बिल्कुल जीरो हमुमैन

बिज़नेस रेमेडीज/मुंबई

इराया लाइफस्पेस लिमिटेड को

यह घोषणा करते हुए खुशी हो

रही है कि इराया के नेतृत्व में

(कॉन्सॉर्टियम) ने एबिक्स की

100त्र इक्विटी हासिल करने के

लिए एबिक्स आईएनसी. के

इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक टर्म

शीट सौंपी है, जिसे कंपनी द्वारा

स्वीकार किए जाने पर पार्टियों

और अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डर्स

के बीच बात-चीत के लिए

रिऑर्गनिजशन के चैप्टर 11

प्लान के अनुसार प्रभावी किया

जाएगा। यह योजना यनाइटेड

स्टेट्स आफ अमेरिका बेगक्रप्सी

कोड के प्रावधानों के अनुसार

बैंगऋप्सी कोर्ट की मंजुरी के

अधीन होगी। इराया के नेतृत्व

वाले संघ (कॉन्सॉर्टियम) द्वारा

प्रस्तृत शर्तों को एबिक्स सीईओ

के नेतृत्व वाले एबिक्स सीनियर

मैनेजमेंट का समर्थन प्राप्त है,

और वे स्पॉन्सर प्लान की मदद

से एबिक्स को चैप्टर 11 से

बाहर निकालने के लिए देनदारों

के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर

काम करने का इरादा रखते हैं।

सदस्यों के एक



आज, भारतीय उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत हैं और अपने और अपने परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनने का प्रयास करते हैं। %बॉटम्स अप...इंडिया सेज चीयर्स ट्र मिल्क% शीर्षक से एक मिल्क रिपोर्ट भी जारी की गई है. जिसके निष्कर्षों में भी यही बात कही गई है, जिसमें हर 2 में से 1 उपभोक्ता दुध खरीदते समय मिलावट न होने के आश्वासन के अलावा स्वच्छ सोर्सिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग पर भी विचार करता है।

माई फार्म मिल्क के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, गोदरेज जर्सी के सीईओ भूपेंद्र सूरी ने कहा कि गोदरेज में हम अपने दुध के उत्पादन और वितरण के तरीके के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। दूध की गुणवत्ता इस बात पर

बाइंडिंग स्टॉकिंग हॉर्स एग्रीमेंट के

(कॉन्सॉर्टियम) देनदारों को 5त्र

प्रपोजल में उत्तरी अमेरिकी

कंपनी की सभी देनदारियों को

विश्वव्यापी सहायक कंपनियों में

100त इक्विटी और एसेट्स के

अधिग्रहण का प्रावधान है, उन

देनदारियों के अलावा जिन्हें संघ

(कॉन्सॉर्टियम) द्वारा स्पष्ट रूप

से स्टाकिंग हॉर्स एग्रीमेंट द्वारा

इंश्योरेंस, फाइनेंशियल और

हल्थकयर इंडस्ट्रीज के लिए

ऑन-डिमांड सॉफ़्टवेयर और ई-

कॉमर्स सेवाओं का एक प्रमुख

अंतर्राष्ट्रीय आपर्तिकर्ता है, यह

एबिक्स आईएनसी. इंफ्रास्ट्रक्कर

के आदान-प्रदान, करियर

सिस्टम्स, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में

शामिल सभी संस्थाओं हेतु

कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के

लिए एजेंसी सिस्टम और रिस्क

समाधान से लेकर एंड-टू-एंड

सॉल्यूशंस देता है। एबिक्स की

(अनुपालन)

कंप्लायंस

आईएनसी

पहचाना जा सकता है।

एबिक्स

संघ (कॉन्सॉर्टियम)

कैश डिपॉजिट करेगा।

छोड़कर, एबिक्स

पर

निर्भर करती है कि गायों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इसलिए हम 1,400 गायों की व्यक्तिगत देखभाल करते हैं, जिसमें नियमित आधार पर उनके भोजन और स्वास्थ्य की निगरानी करना भी शामिल है। हमारे अत्याधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र और पुरी तरह से नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखला के साथ मिलकर हमें अछूता, पौष्टिक और ताज़ा दूध उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है। दुध का एकमात्र स्रोत होने के साथ, गाय से पैकेजिंग तक पूरी पेशेवरता के साथ, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, उपभोक्ताओं को अब गोदरेज माय फार्म दुध का आनंद लेने की अनुमति मिलती है, जैसे कि उनके पास बैकयार्ड में एक गाय हो और वहां से दूध उनकी मेज पर पहुंचता हो।

इराया लाइफरपेस लिमिटेड ने एबिक्स आईएनसी, अमेरिका की 100 प्रतिशत इक्विटी

पाने के लिए मैनेजमेंट समर्थित रिऑर्गीनजशन प्लान के साथ प्रपोज़ल सबमिट किया

फिजिटल स्ट्रेटजी कई दक्षिण

पूर्व एशियाई देशों (आसियान)

देशों में 320,000 फिजिकल

डिस्ट्रिब्यूशन आउटलेट्स को

फॉरेक्स ऑपरेशन भारत के

एयरपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज में

अग्रणी बनकर उभरा है, जो प्रति

वर्ष 4.8 बिलियन डॉलर से

अधिक का ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू

कंडक्ट करता है। भारत में

एबिक्स कैश का इनवार्ड

(आवक) रेमिटेंस बिज़नेस

लगभग 5 बिलियन डॉलर का है,

जिससे ग्रॉस एनअल रेमिटेंस

बिजनेस संचालित होता है।

एबिक्स कैश ने वाया और

मकरी के अपने ट्रेंबल

पोर्टफोलियो की मदद से प्रति

वर्ष ग्रॉस व्यापारिक मूल्य में

अनुमानित 2.5 बिलियन डॉलर

अधिक कार्यालयों के साथ,

एबिक्स लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ

और प्रॉपर्टी तथा कैजुअल्टी

इंश्योरेंस के क्षेत्र में दुनिया भर में

कई एक्सचेंजों को शक्ति प्रदान

करता है, जबकि अपने

प्लेटफार्म पर सालाना 100

एक्रॉस द ग्लोब 50 से

की प्रोसेसिंग की है।

जोड़ती है। एबिक्स कैश

गई मिल्क रिपोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 55 प्रतिशत उपभोक्ता अस्वास्थ्यकर दुध को बिना ब्रांड वाले दूध के विकल्प के साथ तुलना करते हैं। इसके अतिरिक्त, 90 प्रतिशत उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता वाले और सुरक्षित दूध के लिए अधिक या प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं, इस रिपोर्ट ने उपभोक्ताओं के बीच शुद्ध और सुरक्षित डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को सामने रखा है। 50 रुपये की कीमत पर 500 एमएल दध उपलब्ध है। गोदरेज माई फार्म वर्तमान में 70 से अधिक आधुनिक व्यापार स्टोर (मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स) के साथ ही जे़प्टो, मिल्कबास्केट, बीबी डेली और एफटीएच डेली जैसे प्रमुख क्रिक-कॉमर्स चैनलों पर भी उपलब्ध है। कंपनी का लक्ष्य साल के अंत तक हैदराबाद शहर में 500 से अधिक आधुनिक व्यापार स्टोर में अपनी मौजूदगी बढ़ाना है। गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी कौशल को प्राथमिकता देकर, GAVL भारत में एक स्वस्थ और अधिक वाइब्रेंट डेयरी लैंडस्कैप को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिलियन डॉलर से अधिक

इंश्योरेंस प्रीमियम का संचालन

करता है। इराया लाइफस्पेस एक

प्रीमियम लाइफस्टाइल और

हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो दुनिया

भर में अविस्मरणीय अनुभव

प्रदान करने के लिए समर्पित है।

उत्कृष्टता के जुनून पर आधारित,

हम लग्ज्री,कम्फर्ट और स्टाइल

का मिश्रण करके ऐसे इमर्सिव

(गहन) एनवायरनमेंट का

निर्माण करते हैं जो मात्र

अस्तित्व से परे है। हमारा

पोर्टफोलियो भारत की समृद्ध

संस्कृति और विरासत का जश्न

मनाता है. जो आइकॉनिक

डेस्टिनेशंस में यूनिक एस्केप की

पेशकश करता है। चाहे वह

फ्लॉलस इवेंट्स को तैयार करना

हो या इनोवेटिव कंटेंट का

लाइफस्पेसेज अपेक्षाओं से

अधिक और जीवन भर याद

रहने वाली यादें बनाने के लिए

प्रतिबद्ध है। एराया/इराया में

आपका स्वागत है, जहां लग्ज़री

और हेरिटेज पूर्ण सामंजस्य में

मिलती है। जबिक इराया अपने

वर्तमान क्षेत्र में इनोवेशन और

उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में

निर्माण करना हो,

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बोर्ड मीटिंग का परिणाम - ३,२०० करोड़ का प्रफरेंशियल इश्यू

आगामी विकास अवसरों का

लाभ उठाने के उद्देश्य से, बैंक

प्रेफरेंशियल बेसिस पर बैंक के

इक्रिटी शेयर जारी करके

3,200 करोड़ की धनराशि

जुटाने का इरादा रखता है।

3,200 करोड़ की इस प्रस्तावित

पूंजी वृद्धि के साथ, बैंक की

समग्र पूंजी पर्याप्तता 31मार्च,

2024 तक रिस्क वेटिड एसेट्स पर गणना के अनुसार 17.49

प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, जो

बैंक को भविष्य के विकास में

भाग लेने के लिए एक मजबूत

स्थिति में रखेगी। उपर्युक्त आशय

के साथ, बैंक के निदेशक मंडल

(बोर्ड) ने आज यानि 30 मई,

2024 को आयोजित अपनी

बैठक में, अन्य बातों के साथ-

प्रस्तावित आवंटियों में उल्लिखित

आवंटियों को, प्रत्येक 10/-

फेस वैल्यू के 39,68,74,600

पुर्ण चुकता इक्विटी शेयर

80.63/- प्रति इक्विटी शेयर की

(मात्र तीन हजार दो सौ करो

एक्ट, 2013 और सेर्ब

आईसीडीआर रेग्युलेशंस के लाग

प्रावधानों के अनुसार जारी करने

पेश करने और आवंटित करने

पर विचार किया और उसे मंजूरी

दी है, और यह 'बैंक'

शेयरधारकों के अनुमोदन

आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंक की समय

सीमा पर अलर्ट जारी किय बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली

(आईएएनएस)। आयक

विभाग ने करदाताओं से आग्रह

किया कि जिन्होंने अभी तक

अपने पैन को आधार से लिंक

नहीं किया है, वे 31 मई की

समय सीमा से पहले ऐसा क

लें, अन्यथा उन्हें अधिक कर क

भुगतान करना पड़ेगा। आयक

विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में

कहा कि उच्च दर पर क

कटौती से बचने के लिए कृपय

31 मई से पहले अपने पैन के

आधार से लिंक करें।

Date: 30.05.2024

स्थान : जयपुर

अधीन भी है।

रुपये) [ राउंड

(प्रेफरेंशियल इश्यू ),

बेसिस

3,200

ऑफ

कंपर्न

साथ, बताया है।

प्रेफरेंशियल

कीमत पर,

बिज़नेस रेमेडीज/मुंबई

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक और लाभदायक व्यवसाय मॉडल के साथ एक मजबूत नींव रखी है। बैंक को जमा राशि जुटाने में मजबूत प्रगति देखने को मिल रही है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 में कस्टमर डिपॉजिट्स राशि में वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 42 ब की वृद्धि हुई है। बैंक को हाई एसेट क्वालिटी के साथ ऋग वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण आगामी अवसर भी दिखाई दे रहे हैं। बैंक की ओवरआल एसेट क्वालिटी अच्छी बनी हुई है, जिसके तहत 31 मार्च, 2024 तक जीएनपीए 1.88 प्रतिशत और एनएनपीए 0.60 प्रतिशत है। रिटेल, रूरल और एसएमई फाइनेंस बुक में, 31 मार्च, 2024 तक ग्रॉस और नेट एनपीए क्रमशः 1.38 प्रतिशत और 0.44 प्रतिशत पर

काफी कम बने हुए हैं। बैंक विकास के अवसरों का स्थिर तरीके से लाभ उठाने के लिए अनुभव, टीम, प्रौद्योगिकी, सिस्टम, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण के मामले में भी अच्छी स्थिति में है। वित्त वर्ष 24 में कर के बाद लाभ बढ़कर 2,957 करोड़ रुपये हो जाने के साथ बिजनेस भी प्रॉफिटेबल है, जो वित्त वर्ष 23 में 2,437 करोड से 21 प्रतिशत अधिक है। 31 मार्च, 2024 तक पूंजी पर्याप्तता 16.11 प्रतिशत पर मजबूत है।

खड़ा है, दूढ़ संकल्प पर बनी

सालिड फाउंडेशन, क्लियर

विज्न, इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटजी और

उत्कृष्टता के प्रति अटूट

प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित, इस

कंपनी ने इंडस्ट्री में मान्यता प्राप्त

की है। इराया एक स्ट्रेटिजिक

ऑप्शन के रूप में अपने वर्तमान

दायरे से परे विस्तार करने की

कोशिश कर रहा है, नए व्यापार

क्षेत्रों को गले लगाते हुए ग्रोथ,

डायवर्सिफिकेशन और लगातार

विकसित हो रहे बाजार में निरंतर

प्रासंगिकता के लिए एक

आशाजनक अवसर प्रस्तुत

करता है। इराया ने अपने क्षितिज

का विस्तार करने और विभिन्न

प्रकार के व्यवसायों के विलय

और अधिग्रहण के माध्यम से

नए अवसरों को अनलॉक करने

कीदृष्टि से प्रेरित होकर, नए

व्यावसायिक क्षेत्रों की खोज पर

अपना ध्यान केंद्रित किया है।

व्यावसायिक क्षेत्रों में विस्तार की

इस परिवर्तनकारी यात्रा पर

निकल पड़ा है, इराया सफलता

का एक नया रास्ता बनाने,

इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए

तैयार है।

लाइफस्पेस

सोने-चांदी के वायदा भाव में नरमी

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली। सोने चांदी के वायदा भाव में

वायदा भाव 72 हजार रुपये, जबिक चांदी के वायदा भाव 95,800 रुपये के करीब थे।

### नरमी देखने को मिली। सोने के 🔼 एम. के. एक्जिम (इंडिया) लिमिटेड

iजीकृत कार्यालय : जी-1/150, गारमेंट जोन, ई.पी.आई.पी. सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर -302022 सीआईएन: L63040RJ1992PLC007111

ई-मेल: mkexim@gmail.com वेबसाइट: website: www.mkexim.com TEL. NO. 0141-3937501 अनुलग्नक-×। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए

अंकेक्षित एकल (					(र लाख में)
विवरण	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	वार्षिक समाप्त	वार्षिक समाप्त
144401			31.03.2023	31.03.2024	
	(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	2156.58	1938,45	2639.01	9433.13	10703,68
अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद तथा असाधारण मदों से पूर्व)	424,26	585.05	493.33	2063.87	2219.81
अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से पूर्व (अपवाद तथा असाधारण नदों के बाद)	424.26	585.05	493.33	2063.87	2219.81
अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा असाधारण मदों के बाद)	305.10	437.83	341.22	1531.80	1636.08
अवधि हेतु कुल व्यापक आय अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आयों को सम्मिलित करके (कर पश्चात)	305,10	437,83	341.22	1531.80	1636.08
प्रदत्त समता अंश पूँजी	4036.73	2691.15	2691.15	4036.73	2691.15
संच्य (पुनर्गृत्यांकन संचय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है)	4111.22		3924,99	4111.22	3924.99
प्रति शेयर अर्जन (रु 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचलनों हेतु )-	7		1		1
मूल:	0.76	1.08	0.85	3.79	4.05
त्रह:	0.76	1.08	0.85	3.79	4.05

नोट: 1. उक्त अंकेंबित एकल (स्टेंडजलोन) वितीय परिणामी की अंकेबण समिति द्वारा संपीक्ष की गयी तथा 29 मई 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में स्वीकृत किये गए। साविधिक अंकेबकों ने इन स्टेंडअजोन वितीय परिणामी पर अन्तरोशिक त्योडिट अभिमत प्रकट किये हैं। 2. उपरोक्त विवरण संबी (सूचीकरण विवर्क एं प्रकटीकरण आवश्यकतारी) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टोंक एक्सम्बंजों में दायर किये गए, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वितीय वर्ष और तिमाही के अकेबित एकल स्टेंडअलोन) वितीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक चद्धरण है। अंकेबित एकल (स्टेंडअलोन) विती रिणामों का पूर्ण प्रारूप बॉर्म्बे स्टॉक एक्सप्रैंज की वेबसाइट http://www.bselndia.com और कंपनी की वेबसाइ

बोर्ड के आदेश द्वारा एम. के. एक्जिम (इंडिया) लिमिटेड के लिए दिनांक: 29.05.2024

हरताक्षर / – मनीव मुरलीधर दायलानी (प्रबंध निदेशक) डीआईएन.: 05201121



### ग्लोबल सर्फेसेस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: पीए-10-006 इंजीनियरिंग और रिलेटेड इंडस सेज , महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सांगानेर, जयपुर राजस्थान - 302037 आईएन, दूरभाष: 0141-7191000 वेबसाइट:- www.globalsurfaces.in; ईमेल:- cs@globalsurfaces.in CIN: L14100RJ1991PLC073860

मार्च 31,2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

				व विशावत (	10 chal-
O	f	तेमाही समा	वर्ष समाप्त		
Iddan	31-03-2024	31-12-2023	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
संचालन से राजस्व	1,086.22	400.65	395.96	2,252.91	1,780.66
पीबीआईडीटी	160.78	75.14	90.86	386.83	382.90
अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)	114.92	44,96	59.13	252,52	252,91
अवधि के लिए कर से बाद शुद्ध लाम/(हानि)	108.34	34.09	57.50	197.81	242.34
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	109.51	34.29	56.01	203,92	257.13
इक्रिटी शेयर पूंजी (क. 10- प्रत्येक)	423.82	423.82	423.82	423.82	423.82
अन्य इक्विटी (रिजर्व)				2,881.25	2,189.48
प्रति शेयर आयः					-
मूल (रुपये में) तरल (रुपये में)	2.48 2.48	0.77 0.77	1.68 1.68	4.41	7.10 7.10
	पीबीआईडीटी अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाम/(हानि) अवधि के लिए कर से बाद शुद्ध लाम/(हानि) अवधि के लिए कुल व्यापक आय इक्रिटी शैयर पूजी (क. 10 – प्रत्येक) अन्य इक्रिटी (रिजर्व) प्रति शैयर आय: पूल (रुपये में)	144ए    31-03-2024   अतंबार्गवित   1,086.22   वीबीआईडीटी   160.78   160.78   34   160.78   14.92   वुद्ध लाम/(हानि)   381ध के लिए कर से बाद   108.34   वुद्ध लाम/(हानि)   381ध के लिए कुल व्यापक आय   109.51   इकिटी शेकर पूंजी (क. 10 - प्रत्येक)   423.82   अत्य इकिटी (रिजर्व)   प्रति शेवर आय:   पूज (रुपये में)   2.48	विवरण (तमाही समा 31-03-2024 31-12-2023 अलंबापनीहा समा 31-03-2024 31-12-2023 अलंबापनीहा कर्मचालन से राजस्व 1,086.22 400.85 पीबीआईडीटी 160.78 75-14 340.9 शुद्ध लाम/(हानि) अविधि के लिए कर से महले 114.92 44.96 शुद्ध लाम/(हानि) अविधि के लिए कर से बाद 108.34 34.09 शुद्ध लाम/(हानि) अविधि के लिए कुल व्यापक आय 109.51 34.29 इकिटी शेयर पूजी (रु. 10- प्रत्येक) 423.82 423.82 अन्य इक्रिटी (गिजर्व) प्रति श्रेयर आय: मूल (रुपये में) 2.48 0.77	तिमाही समाप्त   31-32-2023   31-12-2023   31-32-2023	31-03-2024   31-12-2023   31-03-2023   31-03-2024   31

अन्य इक्विटी (रिजर्व) के आंकड़े केवल बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार दिए गए हैं। नोट: SEBI (LODR) के विनियम 47(1)(b) के अनुसार कंपनी की स्टेंडअलोन वित्तीय जानकारी

砑.	A	1	तिमाही समाप्त			
3.	विवरण	31-03-2024	31-12-2023	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
Ü		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	तंखापरीक्षित
1.	संचालन से राजस्व	444.25	404.74	391.12	1,621.35	1,770.30
2.	पीबीआईडीटी	75.44	88.98	87.52	364.29	388.94
3.	कर से पहले शुद्ध लाम	47.04	63.85	56.18	257.84	260,38
4.	कर से बाद शुद्ध लाभ	42.89	53.69	54.78	210.64	250.74
	And the state of the same	A site on the Ke	NAME OF THE OWNER, THE	TAN AG	oc + Ym	er Atom

33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ फाइल किए गए तिमाही और वर्ष के अंत में लेखा परीक्षित वितीय रिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। लेखापरीक्षित स्टेंडअलोन और समेकित तिमाही और वार्षिक वेत्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी www.nseindia.com और ww.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट www.globalsurfaces.in पर भी उपलब्ध है। निर्देशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थानः दुबई दिनांकः २९ मई, २०२४

### A.K. SPINTEX LIMITED

Regd. Office:-14 K.M. STONE, CHITTOR ROAD, BILIYA-KALAN, BHILWARA-311001 (RAJ.) Ph: 9887049006, 9929139002 Audited Financial Result for the Quarter and Year ended March 31, 2024 (Rs. In lacs)

Addited Fillancial Result for the Quart	er and rear	Cilucu ivia	111 31, 2024	Tura III iaca
Particulars	Ouerter Ended 31,03,2024	Ouarter Ended 31.12.2023	Corresponding 3 Month Ended 31.03.2023	Year Ended 31.03,2024
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total income from operations (net)	3053.78	2842.13	3232.28	11723.55
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	209.90	275.13	154.38	844.73
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	209.90	275.13	154.38	844.73
Equity Share Capital	503.18	503.18	503.18	503.18
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				3394.11
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic & Diluted (In Rs.)	4.17	5.47	3.07	16.79
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic & Diluted (In Rs.)	4.17	5.47	3.07	16.79

Notes:- The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31s March 2024 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full formats on Financial Results are available on the Stock Exchange websites of BSE at www.bseindia.com and company's website at www.akspintex.com.

For and on behalf of Board of Directors For A.K. SPINTEX LIMITED

(Prakash Chand Chhabra) ging Director (DIN: 00155631)

# आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बनाया कॉरपोरेट एजेंसी गठबंधन

बिज़नेस रेमेडीज/मुंबई

भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ('बैंक') ने भारत की लीडिंग निजी सामान्य बीमा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ बैंकाश्योरेंस कॉरपोरेट एजेंसी गठजोड़ की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य बैंक के उत्पाद की पेशकश को व्यापक बनाना और अपने ग्राहकों को सामान्य बीमा उत्पादों (जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट) की एक डाइवर्सिफाइड रेंज प्रदान करना है, जो बैंक की विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए और इनोवेटिव इंश्योरेंस सॉल्यूशन (नए बीमा समाधानों) तक पहुंच प्रदान करके ग्राहकों के एक बड़े समूह को सेवा प्रदान करने में सक्षम



होगा। बैंकिंग इंडस्ट्री में दो दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने विशिष्ट मार्केट-मिडिल-इनकम वर्ग के ग्राहकों की एक बेहतर समझ विकसित की है। बैंक ने इस वर्ग की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को तैयार किया है। इस सहयोग के माध्यम से, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर लोन, होम लोन, ट्रैवल इंश्योरेंस और रूरल इंश्योरेंस

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सामान्य बीमा उत्पादों के व्यापक सेट को वितरित करने के लिए अपने व्यापक नेटवर्क और कस्टमर बेस (ग्राहक आधार) का लाभ उठाएगा। यह साझेदारी ग्राहकों को उनकी बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ बीमा समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करके उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तैयार है।

बैंक के इंश्योरेंस पार्टनर्स (बीमा साझेदारों )

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जुड़ने से उसके ग्राहकों के लिए उपलब्ध बीमा समाधानों की लिमिट और क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी, जिससे अधिक वित्तीय सुरक्षा के साथ और अधिक स्विधा भी सुनिश्चित होगी। इस साझेदारी पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के चीफ-रिटेल एंड गवर्नमेंट, आनंद सिंघी ने कहा कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हमारा गठबंधन हमारी पहुंच को और अधिक विस्न देने के लिए एक रणनीतिक कदम है, खासकर बैंक के उत्तरी भारत में मजबूती से स्थापित होने के साथ। यह साझेदारी बैंक के ग्राहकों को पर्याप्त जोखिम कवर करने और हमारे नए यानी इनोवेटिव और तकनीक-संचालित बीमा समाधानों की बड़ी रेंज तक पहुंचने में सशक्त बनाएगी। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ सर्वजीत सिंह सामरा ने

कहा कि जैसा कि हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ इस रणनीतिक गठबंधन की शुरुआत कर रहे हैं, हम अपने ग्राहकों के लिए पेश किए गए अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। यह साझेदारी हमारे ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप व्यापक वित्तीय समाधान पेश करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस साझेदारी के माध्यम से, हमारा लक्ष्य व्यवसायों और व्यक्तियों को समान रूप से सशक्त बनाने में एक भरोसेमंद फाइनेंशियल पार्टनर (वित्तीय भागीदार) के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए क्वालिटी बीमा उत्पादों तक पहुंच बढ़ाना है। यह साझेदारी हमारे मिडिल-इनकम ग्रुप (एमआईजी) ग्राहकों के लिए प्राथमिक बैंकर बनने की दिशा में एक और कदम है, जिससे बिजनेस में विस्तार के साथ ही रेवेन्यू में ग्रोथ होगी।

### युनिक ऑरगेनिक्स लिमिटेड

रजि. ऑफिसः ई-521, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-22 (राज.) दूरभाषः 91-141-2770315/2770509 वेबसाईट : www.uniqueorganics.com ई-मेल : compliance@uniqueorganics.com

### 31.03.2024 को समाप्त चतुर्थ तिमाही एवं वार्षिक के संक्षिप्त स्टेण्डअलोन अंकेक्षित वित्तीय परिणाम

5 VH: L24119RJ1993PLC007148

क. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2024 (अंकेक्षित)	पूर्ववर्ती समाप्त तिमाही 31.12.2023 (अनांकेक्षित)	समाप्त संबंधित तिमाही 31.03.2023 (अंकेक्षित)	समाप्त वर्तमान वार्षिक 31.03.2024 अंकेक्षित	समाप्त गत वार्षिक 31.03.2023 अंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	3,591.66	7,054.66	4,317.20	20,438.10	18,532,91
2.	अवधि के लिए निवल लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असावारण मर्दा से पूर्व)	(19.41)	453.88	(99.63)	854.16	542.77
3.	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाम/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधाराण मदीं के पश्चात)	(19.41)	453.88	(99.63)	854.16	542.77
4.	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाम/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	3.62	327.61	(79.73)	834.16	382.77
5.	अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) एवं अन्य समग्र आय (कर पश्चात) सम्मिलित]	1.70	327.61	(78.81)	632.24	383.69
6.	समता अंश पूंजी	595.30	595.30	595.30	595.30	595.30
7.	आरक्षित निधियां (गत वर्ष के अकेक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित पुनर्मूल्यांकन निधियों को छोड़कर)				1656.30	1024.06
8.	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) (सतत एवं असतत परिचालनों सं)					14.3
	मूलः	0.06	5.50	(1.34)	10.65	6.43
11	अवगिश्रितः	0.06	5.50	(1.34)	10.65	6.43

नोट : 1, उपरोक्त विवरण सेवी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर की गई जैमासिक / वार्षिक परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। विस्तृत प्रारूप में जैमासिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.sbeindia.com) और कम्पनी की वेबसाईट http:// uniqueorganics.com/investor/financial-reports/ पर

कृते यूनिक ऑरगेनिक्स लिमिटे ज्योति प्रकाश कनोडिया

DIN: 00207554